

प्रेषक

सुनील श्री पांथरी
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक
उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी
नैनीताल, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 08 मार्च, 2018

विषय:- उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल हेतु स्वीकृत अस्थायी पदों की वर्ष 2018-19 हेतु निरन्तरता की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल हेतु सृजित विभिन्न श्रेणी के अस्थायी पदों की वर्ष 2018-19 हेतु निरन्तरता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल हेतु सृजित विभिन्न श्रेणी के अस्थायी पदों की निरन्तरता अग्रेत्तर एक वर्ष अर्थात् दिनांक 28 फरवरी, 2019 तक के लिये बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, बशर्ते कि उक्त पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जायें।

3- उक्त पदों पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या-06 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-03-राज्य प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(सुनील श्री पांथरी)
अपर सचिव

संख्या- 74 /XXX(4)/2018-01(1)/2016, तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 3- वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- एनआईसी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हेमा पाण्डे)
अनु सचिव